



Mr.sevani

27 Aug 2003

07:15 PM

Delhi

Model: Web-MyKundli

Order No: 121504101

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: स्त्रीलिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 27/08/2003  
दिन \_\_\_\_\_: बुधवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 19:15:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 33:16:39 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Delhi  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 28:39:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 77:13:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: -00:21:08 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 18:53:52 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:01:41 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 17:15:25 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 05:56:20 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 18:48:43 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 12:52:23 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: दक्षिणायन  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: उत्तर  
ऋतु \_\_\_\_\_: शरद  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 09:58:47 सिंह  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 20:16:57 कुम्भ

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: कुम्भ - शनि  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: सिंह - सूर्य  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: मघा - 3  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: केतु  
योग \_\_\_\_\_: शिव  
करण \_\_\_\_\_: नाग  
गण \_\_\_\_\_: राक्षस  
योनि \_\_\_\_\_: मूषक  
नाड़ी \_\_\_\_\_: अन्त्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: क्षत्रिय  
वश्य \_\_\_\_\_: वनचर  
वर्ग \_\_\_\_\_: मूषक  
युँजा \_\_\_\_\_: मध्य  
हंसक \_\_\_\_\_: अग्नि  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: मू-मुक्ता  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: ताम्र - रजत  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: कन्या

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1925	भाद्रपद	5
पंजाबी	संवत : 2060	भाद्रपद	11
बंगाली	सन् : 1410	भाद्रपद	10
तमिल	संवत : 2060	आवनी	11
केरल	कोल्लम : 1179	चिंगम	11
नेपाली	संवत : 2060	भाद्रपद	11
चैत्रादि	संवत : 2060	भाद्रपद	कृष्ण 15
कार्तिकादि	संवत : 2060	श्रावण	कृष्ण 15

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 15  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 22:56:21  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 15  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मघा  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 28:28:13 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : मघा  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : परिघ  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 11:41:39 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : शिव  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : चतुष्पाद  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 11:43:41 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : नाग  
भयात \_\_\_\_\_ : 34:54:36  
भभोग \_\_\_\_\_ : 57:57:38  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : केतु 2 वर्ष 9 मा 18 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : ज्येष्ठ  
तिथि \_\_\_\_\_ : 3-8-13  
दिन \_\_\_\_\_ : शनिवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : मूल  
योग \_\_\_\_\_ : धृति  
करण \_\_\_\_\_ : बव  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : मार्जार  
लग्न \_\_\_\_\_ : मीन  
सूर्य \_\_\_\_\_ : धनु  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : वृश्चिक  
मंगल \_\_\_\_\_ : मकर  
बुध \_\_\_\_\_ : तुला  
गुरु \_\_\_\_\_ : कुम्भ  
शुक्र \_\_\_\_\_ : मीन  
शनि \_\_\_\_\_ : वृश्चिक  
राहु \_\_\_\_\_ : मेष

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



## लग्न कुण्डली और दशा

### लग्न कुंडली

		रा	श
मं ल			
			शु च सू गु
	के		बु

### लग्न कुंडली

	रा		
श			मं ल
च शु गु	सू		
	बु		के

विंशोत्तरी  
केतु 2वर्ष 9मा 18दि  
केतु

27/08/2003

17/06/2119

केतु	15/06/2006
शुक्र	15/06/2026
सूर्य	15/06/2032
चन्द्र	15/06/2042
मंगल	15/06/2049
राहु	16/06/2067
गुरु	16/06/2083
शनि	16/06/2102
बुध	17/06/2119

योगिनी  
भद्रिका 2वर्ष 0मा 0दि  
संकटा

27/08/2018

27/08/2026

संकटा	07/06/2020
मंगला	27/08/2020
पिंगला	05/02/2021
धान्या	07/10/2021
भ्रामरी	27/08/2022
भद्रिका	07/10/2023
उल्का	05/02/2025
सिद्धा	27/08/2026


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			कुंभ	20:16:57	505:06:07	पू०भाद्रपद	1	25	शनि	गुरु	गुरु	---
सूर्य			सिंह	09:58:47	00:57:57	मघा	3	10	सूर्य	केतु	शनि	मूलत्रिकोण
चंद्र			सिंह	07:59:54	13:50:01	मघा	3	10	सूर्य	केतु	गुरु	मित्र राशि
मंगल	व		कुंभ	11:25:50	00:16:02	शतभिषा	2	24	शनि	राहु	शनि	सम राशि
बुध			कन्या	02:22:19	00:05:38	उ०फाल्गुनी	2	12	बुध	सूर्य	गुरु	उच्च राशि
गुरु		अ	सिंह	06:08:05	00:13:05	मघा	2	10	सूर्य	केतु	राहु	मित्र राशि
शुक्र		अ	सिंह	12:24:04	01:14:22	मघा	4	10	सूर्य	केतु	बुध	शत्रु राशि
शनि			मिथु	16:18:17	00:05:39	आर्द्रा	3	6	बुध	राहु	शुक्र	मित्र राशि
राहु	व		वृष	00:05:47	00:12:20	कृतिका	2	3	शुक्र	सूर्य	राहु	मित्र राशि
केतु	व		वृश्चि	00:05:47	00:12:20	विशाखा	4	16	मंगल	गुरु	चंद्र	मित्र राशि
हर्ष	व		कुंभ	06:48:34	00:02:23	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	राहु	---
नेप	व		मक	17:16:40	00:01:28	श्रवण	3	22	शनि	चंद्र	शनि	---
प्लूटो	व		वृश्चि	23:19:53	00:00:03	ज्येष्ठा	2	18	मंगल	बुध	चंद्र	---
दशम भाव			वृश्चि	25:50:42	--	ज्येष्ठा	--	18	मंगल	बुध	राहु	--


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:54:16


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	कुम्भ 06:12:34	कुम्भ 20:16:57
2	मीन 06:12:34	मीन 22:08:12
3	मेष 08:03:49	मेष 23:59:27
4	वृष 09:55:05	वृष 25:50:42
5	मिथुन 09:55:05	मिथुन 23:59:27
6	कर्क 08:03:49	कर्क 22:08:12
7	सिंह 06:12:34	सिंह 20:16:57
8	कन्या 06:12:34	कन्या 22:08:12
9	तुला 08:03:49	तुला 23:59:27
10	वृश्चिक 09:55:05	वृश्चिक 25:50:42
11	धनु 09:55:05	धनु 23:59:27
12	मकर 08:03:49	मकर 22:08:12


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	कुम्भ	20:16:57
2	मेष	00:09:58
3	वृष	00:54:35
4	वृष	25:50:42
5	मिथुन	19:22:38
6	कर्क	15:45:16
7	सिंह	20:16:57
8	तुला	00:09:58
9	वृश्चिक	00:54:35
10	वृश्चिक	25:50:42
11	धनु	19:22:38
12	मकर	15:45:16


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा
मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती
अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



## विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : केतु 2 वर्ष 9 मास 18 दिन

केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष
27/08/2003	15/06/2006	15/06/2026	15/06/2032	15/06/2042
15/06/2006	15/06/2026	15/06/2032	15/06/2042	15/06/2049
00/00/0000	शुक्र 15/10/2009	सूर्य 03/10/2026	चंद्र 15/04/2033	मंगल 11/11/2042
00/00/0000	सूर्य 15/10/2010	चंद्र 04/04/2027	मंगल 14/11/2033	राहु 30/11/2043
00/00/0000	चंद्र 15/06/2012	मंगल 09/08/2027	राहु 16/05/2035	गुरु 05/11/2044
00/00/0000	मंगल 15/08/2013	राहु 03/07/2028	गुरु 14/09/2036	शनि 15/12/2045
00/00/0000	राहु 15/08/2016	गुरु 21/04/2029	शनि 15/04/2038	बुध 12/12/2046
27/08/2003	गुरु 16/04/2019	शनि 03/04/2030	बुध 15/09/2039	केतु 10/05/2047
गुरु 09/05/2004	शनि 15/06/2022	बुध 08/02/2031	केतु 15/04/2040	शुक्र 09/07/2048
शनि 18/06/2005	बुध 15/04/2025	केतु 16/06/2031	शुक्र 15/12/2041	सूर्य 14/11/2048
बुध 15/06/2006	केतु 15/06/2026	शुक्र 15/06/2032	सूर्य 15/06/2042	चंद्र 15/06/2049

राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष
15/06/2049	16/06/2067	16/06/2083	16/06/2102	17/06/2119
16/06/2067	16/06/2083	16/06/2102	17/06/2119	00/00/0000
राहु 26/02/2052	गुरु 03/08/2069	शनि 18/06/2086	बुध 12/11/2104	केतु 13/11/2119
गुरु 22/07/2054	शनि 14/02/2072	बुध 26/02/2089	केतु 09/11/2105	शुक्र 12/01/2121
शनि 28/05/2057	बुध 22/05/2074	केतु 06/04/2090	शुक्र 09/09/2108	सूर्य 20/05/2121
बुध 15/12/2059	केतु 28/04/2075	शुक्र 06/06/2093	सूर्य 17/07/2109	चंद्र 19/12/2121
केतु 02/01/2061	शुक्र 27/12/2077	सूर्य 19/05/2094	चंद्र 16/12/2110	मंगल 17/05/2122
शुक्र 02/01/2064	सूर्य 15/10/2078	चंद्र 18/12/2095	मंगल 13/12/2111	राहु 04/06/2123
सूर्य 26/11/2064	चंद्र 14/02/2080	मंगल 26/01/2097	राहु 02/07/2114	गुरु 28/08/2123
चंद्र 28/05/2066	मंगल 20/01/2081	राहु 03/12/2099	गुरु 06/10/2116	00/00/0000
मंगल 16/06/2067	राहु 16/06/2083	गुरु 16/06/2102	शनि 17/06/2119	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल केतु 2 वर्ष 9 मा 12 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

शुक्र - केतु	सूर्य - सूर्य	सूर्य - चंद्र	सूर्य - मंगल	सूर्य - राहु
15/04/2025	15/06/2026	03/10/2026	04/04/2027	09/08/2027
15/06/2026	03/10/2026	04/04/2027	09/08/2027	03/07/2028
केतु 10/05/2025	सूर्य 21/06/2026	चंद्र 18/10/2026	मंगल 11/04/2027	राहु 28/09/2027
शुक्र 20/07/2025	चंद्र 30/06/2026	मंगल 29/10/2026	राहु 30/04/2027	गुरु 11/11/2027
सूर्य 10/08/2025	मंगल 06/07/2026	राहु 25/11/2026	गुरु 17/05/2027	शनि 02/01/2028
चंद्र 15/09/2025	राहु 23/07/2026	गुरु 20/12/2026	शनि 06/06/2027	बुध 17/02/2028
मंगल 10/10/2025	गुरु 06/08/2026	शनि 17/01/2027	बुध 25/06/2027	केतु 07/03/2028
राहु 13/12/2025	शनि 24/08/2026	बुध 12/02/2027	केतु 02/07/2027	शुक्र 01/05/2028
गुरु 07/02/2026	बुध 08/09/2026	केतु 23/02/2027	शुक्र 23/07/2027	सूर्य 18/05/2028
शनि 16/04/2026	केतु 15/09/2026	शुक्र 25/03/2027	सूर्य 30/07/2027	चंद्र 14/06/2028
बुध 15/06/2026	शुक्र 03/10/2026	सूर्य 04/04/2027	चंद्र 09/08/2027	मंगल 03/07/2028

सूर्य - गुरु	सूर्य - शनि	सूर्य - बुध	सूर्य - केतु	सूर्य - शुक्र
03/07/2028	21/04/2029	03/04/2030	08/02/2031	16/06/2031
21/04/2029	03/04/2030	08/02/2031	16/06/2031	15/06/2032
गुरु 11/08/2028	शनि 15/06/2029	बुध 17/05/2030	केतु 15/02/2031	शुक्र 15/08/2031
शनि 26/09/2028	बुध 03/08/2029	केतु 04/06/2030	शुक्र 09/03/2031	सूर्य 03/09/2031
बुध 07/11/2028	केतु 24/08/2029	शुक्र 26/07/2030	सूर्य 15/03/2031	चंद्र 03/10/2031
केतु 24/11/2028	शुक्र 20/10/2029	सूर्य 11/08/2030	चंद्र 26/03/2031	मंगल 24/10/2031
शुक्र 11/01/2029	सूर्य 07/11/2029	चंद्र 06/09/2030	मंगल 02/04/2031	राहु 18/12/2031
सूर्य 26/01/2029	चंद्र 06/12/2029	मंगल 24/09/2030	राहु 21/04/2031	गुरु 05/02/2032
चंद्र 19/02/2029	मंगल 26/12/2029	राहु 09/11/2030	गुरु 08/05/2031	शनि 03/04/2032
मंगल 08/03/2029	राहु 16/02/2030	गुरु 21/12/2030	शनि 28/05/2031	बुध 25/05/2032
राहु 21/04/2029	गुरु 03/04/2030	शनि 08/02/2031	बुध 16/06/2031	केतु 15/06/2032

चंद्र - चंद्र	चंद्र - मंगल	चंद्र - राहु	चंद्र - गुरु	चंद्र - शनि
15/06/2032	15/04/2033	14/11/2033	16/05/2035	14/09/2036
15/04/2033	14/11/2033	16/05/2035	14/09/2036	15/04/2038
चंद्र 10/07/2032	मंगल 28/04/2033	राहु 04/02/2034	गुरु 20/07/2035	शनि 15/12/2036
मंगल 28/07/2032	राहु 30/05/2033	गुरु 19/04/2034	शनि 05/10/2035	बुध 07/03/2037
राहु 12/09/2032	गुरु 27/06/2033	शनि 14/07/2034	बुध 13/12/2035	केतु 09/04/2037
गुरु 22/10/2032	शनि 31/07/2033	बुध 30/09/2034	केतु 11/01/2036	शुक्र 15/07/2037
शनि 09/12/2032	बुध 30/08/2033	केतु 01/11/2034	शुक्र 01/04/2036	सूर्य 13/08/2037
बुध 22/01/2033	केतु 11/09/2033	शुक्र 31/01/2035	सूर्य 25/04/2036	चंद्र 30/09/2037
केतु 08/02/2033	शुक्र 17/10/2033	सूर्य 28/02/2035	चंद्र 05/06/2036	मंगल 03/11/2037
शुक्र 31/03/2033	सूर्य 28/10/2033	चंद्र 14/04/2035	मंगल 03/07/2036	राहु 28/01/2038
सूर्य 15/04/2033	चंद्र 14/11/2033	मंगल 16/05/2035	राहु 14/09/2036	गुरु 15/04/2038

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	9
भाग्यांक	4
मित्र अंक	1, 3, 6, 9, 4
शत्रु अंक	5, 8
शुभ वर्ष	27,36,45,54,63
शुभ दिन	शुक्र, शनि, मंगल
शुभ ग्रह	शुक्र, शनि, मंगल
मित्र राशि	वृश्चिक, मेष
मित्र लग्न	वृष, तुला, धनु
अनुकूल देवता	सूर्य
शुभ रत्न	नीलम
शुभ उपरत्न	जमुनिया, बिलौर
भाग्य रत्न	हीरा
शुभ धातु	लौह
शुभ रंग	काला
शुभ दिशा	पश्चिम
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	कस्तूरी, कृष्ण गौ, उपानह
दान अन्न	उड़द
दान द्रव्य	तेल

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
नीलम	शनि	80%	सन्तति सुख, कम खर्च, स्वास्थ्य
मूंगा	मंगल	78%	स्वास्थ्य, पराक्रम, व्यावसायिक उन्नति
हीरा	शुक्र	77%	दम्पति, सुख, भाग्योदय
लहसुनिया	केतु	77%	व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य
पुखराज	गुरु	69%	दम्पति, धनार्जन, धन
गोमेद	राहु	64%	सुख, दम्पति
माणिक्य	सूर्य	57%	दम्पति
पन्ना	बुध	38%	दुर्घटना, सन्तति कष्ट
मोती	चंद्र	12%	दाम्पत्य कष्ट, शत्रु व रोग



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
केतु	15/06/2006	38%	0%	84%	38%	69%	83%	67%	52%	89%
शुक्र	15/06/2026	38%	0%	78%	50%	69%	89%	86%	70%	83%
सूर्य	15/06/2032	69%	25%	84%	38%	75%	64%	67%	52%	64%
चंद्र	15/06/2042	63%	38%	78%	50%	69%	77%	80%	52%	64%
मंगल	15/06/2049	63%	25%	91%	12%	75%	77%	80%	52%	83%
राहु	16/06/2067	38%	0%	66%	38%	69%	83%	86%	77%	64%
गुरु	16/06/2083	63%	25%	84%	12%	81%	64%	80%	64%	77%
शनि	16/06/2102	38%	0%	66%	50%	69%	83%	92%	70%	64%
बुध	17/06/2119	63%	0%	78%	56%	69%	83%	80%	64%	77%

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	06/09/2004-13/01/2005	26/05/2005-01/11/2006	10/01/2007-16/07/2007
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	01/11/2006-10/01/2007	16/07/2007-10/09/2009	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	10/09/2009-15/11/2011	16/05/2012-04/08/2012	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	02/11/2014-26/01/2017	21/06/2017-26/10/2017	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/03/2025-03/06/2027	20/10/2027-23/02/2028	-----

### द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	27/08/2036-22/10/2038	05/04/2039-13/07/2039	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	22/10/2038-05/04/2039	13/07/2039-28/01/2041	06/02/2041-26/09/2041
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/12/2043-23/06/2044	30/08/2044-08/12/2046	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	14/05/2054-02/09/2054	05/02/2055-07/04/2057	-----

### तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती प्रथम ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	13/10/2065-03/02/2066	03/07/2066-30/08/2068	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	30/08/2068-04/11/2070	-----	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	05/02/2073-31/03/2073	23/10/2073-16/01/2076	11/07/2076-11/10/2076
अष्टम स्थानस्थ ढैया	20/03/2084-21/05/2086	21/05/2086-08/02/2087	-----

### शनि का ढैया फल

#### ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती प्रथम ढैया
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया

#### फल

सम
सम
अशुभ
सम
सम

#### क्षेत्र

शत्रु से कष्ट
दाम्पत्य कलह
दुर्घटना से बचाव
व्यावसायिक परेशानी
धन

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डेंट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में स्थित है अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं इस मंगल के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा पित या गर्मी से किंचित परेशानी हो सकती है लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप स्वभाव से तेजस्वी रहेंगी तथा स्वपराक्रम के द्वारा अपने सांसारिक महत्व के कार्यों को सम्पन्न करेंगी। इस मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में न्यूनाधिक मात्रा में विलम्ब होगा तथा विवाह संबंधी कोई वार्ता भी असफल हो सकती है लेकिन विवाह अवश्य होगा तथा विवाहोपरांत आपके पति का स्वास्थ्य भी सामान्यतया अनुकूल ही रहेगा तथा सुखी दाम्पत्य जीवन पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आपकी कुंडली के प्रथम भाव में स्थित मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से जीवन में आपको आवश्यक सुख संसाधनों की प्राप्ति में किंचित परिश्रम करना पड़ेगा साथ ही जमीन जायदाद तथा वाहन आदि से भी आप युक्त रहेंगी। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जीवन साथी का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा परन्तु परस्पर मधुरता के संबंध बने रहेंगे। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर होने के कारण सांसारिक कार्यों में यदा कदा व्यवधान उत्पन्न होंगे परन्तु उनका सामना तथा समाधान करने में आप समर्थ रहेंगी। इसके प्रभाव से यदा कदा पित जनित कष्ट की भी संभावना रहेगी परन्तु इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा।

अतः मंगल के दुष्प्रभाव को कम करने तथा शुभ प्रभावों में वृद्धि करने के लिए आपको किसी मांगलिक युवक से विवाह करना चाहिए जिससे मांगलिक दोष परस्पर भंग हो सके। इसके लिए पुरुष की कुंडली में मांगलिक भावों अर्थात् प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भाव में शनि राहु जैसे अन्य पाप ग्रह की स्थिति होनी चाहिए। यदि इस प्रकार मांगलिक दोष भंग होने के पश्चात आप विवाह करेंगी तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा

जीवन में समस्त सुखोपभोग की सामग्री को अर्जित करने में आप समर्थ रहेंगी। साथ ही धन ऐश्वर्य से युक्त होकर आप सुख पूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगी।



## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाब्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाब्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

### काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखपाल नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्ण रूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। परिणामस्वरूप घर-द्वार जमीन-जायदाद, चल-अचल सम्बन्धी वस्तुओं पर थोड़ा बहुत कठिनाईयाँ आती हैं और उससे जातक को बेवजह चिन्ता कभी-कभी घेर लेती है तथा विद्या प्राप्ति में आंशिक रूप से तकलीफ उठानी पड़ती है।

माता से कोई न कोई किसी समय आंशिक रूप में तकलीफ मिलती है। सवारी एवं नौकरों से भी कोई न कोई परेशानियाँ उपस्थित होती रहती हैं। जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी-कभी तनावग्रस्त हो जाता है। चन्द्रमा के प्रभावित होने के कारण जातक समय-समय मानसिक रूप से परेशान रहता है। कार्य के क्षेत्र में अनेक विघ्न आते हैं। पर वे सब विघ्न कालान्तर में स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे कामों को एक साथ करने के कारण कोई भी काम प्रायः पूरा नहीं हो पाता है।

इस योग के प्रभाव से जातक का आर्थिक संतुलन थोड़ा बहुत बिगड़ जाता है, जिस कारण आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जातक के व्यवसाय, नौकरी तथा राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफलताएँ प्राप्त होती हैं एवं सामाजिक पद प्रतिष्ठा भी मिलती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।
11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

## विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृों का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- पंचम भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है ।
- नवम भाव के स्वामी पर शनि का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में बुध और शुक्र के कारण पितृदोष है ।

आपकी कुण्डली में बुध पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला सदस्य द्वारा बच्चों पर किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप बहन, बुआ तथा मौसी की सेवा करके आर्शीवाद लें तथा तोते को हरी मिर्च खिलाकर पिंजड़े से मुक्त कर दें ।

आपकी कुण्डली में शुक्र पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी महिला पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ गरीब या जरूरतमंद स्त्रियों, कन्याओं को तथा पत्नी को दान दें । 11 वर्ष से छोटी 9 कन्याओं को मंदिर में खीर खिलायें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त

वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

**नोट :**

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

## ग्रह फल

### सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

सिंह राशि में रवि हो तो जातक सत्संगी पुरुषार्थी, योगाभ्यासी, वनविहारी, कोधी, गम्भीर, उत्साही, तेजस्वी एवं धैर्यशाली होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके शुभ प्रभाव से धनलाभ प्राप्त करने में वे सफल होंगे तथा जीवन में सर्वप्रकार से आपकी सहायता एवं सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह कराने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही आप उनकी विश्वास पात्र भी होंगी।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी आज्ञा पालन में भी नित्य रुचिशील रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी होंगे जिससे सम्बन्धों में क्षणिक तनाव एवं कटुता उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समयोपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगी।

### चन्द्र

सप्तमभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सभ्य, धैर्यवान् नेता, विचारक, प्रावासी, जलयात्रा करने वाला, व्यापारी, अभिमानी, वकील, कीर्तिमान, शीतल स्वभाववाला एवं स्फूर्तिवान् होता है।

सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो जातक दृढ़देही, दाँत तथा पेट का रोगी, मातृभक्त, अल्पसन्ततिवान्, गम्भीर, दानी, साहसी, शान दिखाने वाला अभिमानी, महत्वाकांक्षी एवं पुराने विचारों वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा सप्तम भाव में स्थित है। अतः माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके प्रति उनके मन में प्यार एवं स्नेह का भाव रहेगा। धन सम्पत्ति से वे सर्वदा युक्त रहेंगी एवं जीवन में आपको अपना सहयोग प्रदान करेंगी। आपकी शादी करने में भी उनका विशेष सहयोग रहेगा तथा आपको व्यापारादि कार्यों में भी पूर्ण आर्थिक या अन्य रूप से सहयोग तथा प्रोत्साहन देंगी।

आप भी उनके प्रति पूर्ण श्रद्धालु रहेंगी एवं हमेशा उनका हार्दिक सम्मान करेंगी। उनकी बातों से आप प्रायः सहमत रहेंगी तथा उसका पालन करने के लिए भी तत्पर रहेंगी। आपके मध्य कभी कभी सैद्धान्तिक मतभेदों की भी उत्पत्ति होगी जिसके कारण कभी कभी अप्रिय स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। परन्तु कुल मिलाकर आपसी संबंध अच्छे रहेंगे तथा एक

दूसरें का सहयोग करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे।

### मंगल

लग्न (प्रथम) में मंगल हो तो जातक, चपल, क्रूर, महत्वाकांक्षी, विचार रहित, गुप्तरोगी, उतावला, लौहधातु एवं व्रणजन्य, कष्ट से युक्त, व्यवसायहानि, दुर्घटना की सम्भावना, दुःखी, निर्धन एवं साहसी होता है।

कुम्भ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, सटटे से धननाशक, आचारहीन, मत्सरवृत्ति एवं बुद्धिहीन होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति प्रथम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक व्याकुलता से वे पीड़ित रहेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह का भाव भी विद्यमान रहेगा। धन धान्य से वे युक्त रहेंगे तथा जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही अन्य प्रकार से समय समय पर आपको आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे।

आपके हृदय में भी उनके प्रति स्नेह एवं सम्मान की भावना विद्यमान रहेगी। आपके संबंध प्रायः मधुर ही होंगे लेकिन यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण अल्प समय के लिए संबंधों में कटुता या तनाव भी उत्पन्न होंगे परन्तु कुछ समय के बाद सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। आप एक दूसरे से प्रायः सहमत रहेंगे एवं विश्वास भी करेंगे। इसके साथ ही आप भी हमेशा सुख दुःख में यथाशक्ति उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार की कष्टानुभूति नहीं होने देंगी।

### बुध

अष्टमभाव में बुध हो तो जातक दीर्घायु, अभिमानी, राजमान्य, कृषक, लब्धप्रतिष्ठ, मानसिक दुखी, कवि, वक्ता, न्यायाधीश, मनस्वी, धनवान् एवं धर्मात्मा होता है।

कन्या राशि में बुध हो तो जातक वक्ता, कवि, साहित्यिक, लेखक, सम्पादक, ज्योतिषी, खगोलशास्त्री, गणितज्ञ, अध्यापक, उदार, सुखी एवं अच्छा चरित्र वाला होता है।

### गुरु

सप्तमभाव में गुरु हो तो जातक सुन्दर, धैर्यवान्, भाग्यवान्, प्रवासी, सन्तोषी, स्त्रीप्रेमी, परस्त्रीरत, ज्योतिषी, नम्र, विद्वान् वक्ता एवं प्रधान होता है।

सिंह राशि में गुरु हो तो जातक धार्मिक, प्रेमी, कार्यकुशल, सभाचतुर शत्रुजित्, आकर्षकव्यक्तित्व, उच्चाकांक्षी, सक्रिय, सुखी, कुशाबुद्धि साहित्य की ओर झुकाव, लेखक एवं उच्च सरकारी पद पर आसीन होता है।

## शुक्र

सप्तमभाव में शुक्र हो तो जातक लोकप्रिय, धनिक, चिन्तित, विवाह के बाद भाग्योदय, साधुप्रेमी, स्त्री से सुख, कामी, भाग्यवान् गानप्रिय, विलासी, अल्पव्यभिचारी चंचल एवं उदार होता है।

सिंह राशि में शुक्र हो तो जातक, अल्पसुखी उपकारी, चिन्तातुर, शिल्पज्ञ, स्त्रियों के द्वारा धन अर्जित करने वाला, कामुक, आवेशपूर्ण एवं अपने को दूसरों से ऊँचा समझने वाला होता है।

## शनि

पंचम भाव में शनि हो तो जातक आलसी, सन्तानयुक्त, चंचल, उदासीन, विद्वान, भ्रमणशील एवं बातरोगी होता है।

मिथुन राशि में शनि हो तो जातक दुराचारी, कपटी, कामी, पाखण्डी, निर्धन, दुःखी एवं संकीर्ण मन वाला होता है।

## राहु

चतुर्थभाव में राहु हो तो जातक असन्तोषी, दुखी, अल्पभाषी, मिथ्याचारी, उदरव्याधियुक्त, कपटी, मातृक्लेशयुक्त एवं क्रूर होता है।

वृष राशि में राहु हो तो जातक सुखी, चंचल, कुरूप, आवेशपूर्ण स्वभाव एवं धनी होता है।

## केतु

दशम भाव में केतु हो तो जातक अभिमानी, परिश्रमशील मूर्ख, पितृद्वेषी, दुर्भागी, संन्यास लेना एवं योगी होता है।

वृश्चिक राशि में केतु हो तो जातक धूर्त, वाचाल, कुष्ठरोगी, क्रोधी निर्धन एवं व्यसनी होता है।

## दशा विश्लेषण

महादशा :- शुक्र  
( 15/06/2006 - 15/06/2026 )

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 15/06/2006 को आरम्भ होकर 15/06/2026 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

आपकी कुण्डली में शुक्र सप्तम भाव में स्थित है। शुक्र स्वभावतः एक शुभ ग्रह है जो अच्छे स्वाद, भावनात्मक आनन्द तथा सुखमय जीवन, विशेष रूप से औरत के साथ, का द्योतक है। यह विवाह का कारक भी है। यह दो राशियों तुला तथा वृष का स्वामी है। यह मीन में उच्च का जबकि कन्या में निम्न का होता है। आपकी जन्म कुण्डली में यह सप्तम भाव में स्थित होकर प्रथम भाव को देख रहा है और इस भाव पर कारकत्व का प्रभाव डाल रहा है। भाव जिस में यह स्थित है अर्थात् सप्तम भाव भूमि, आय, जीवन-साथी और व्यवसाय में साथी, मुकदमें तथा विदेश में प्रभाव या वहाँ अर्जित प्रतिष्ठा का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

महादशा स्वामी शुक्र सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव से यह प्रथम भाव को देख रहा है जो लग्न है तथा शरीर-गठन एवं शरीर का द्योतक है। यह आपकी किसी बड़ी शारीरिक समस्या या दुर्घटना से रक्षा करेगा।

अर्थ संपत्ति :

शुक्र सप्तम भाव में स्थित है और अपने ही भाव को प्रबलित कर रहा है जो साथी या जीवन साथी का भाव है। इस दशा काल में आप साझेदारी का व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं जिसमें आप सफल रहेंगे या विदेश जाने की स्थिति में आपको वहाँ अच्छी उपलब्धियाँ तथा लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे और आपकी चल तथा अचल संपत्ति में वृद्धि संभव है।

व्यवसाय :

आप साझेदारी का व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें सफलता मिलेगी विशेष कर जब यह विचरीत लिंग के साथ हो। आप उन वस्तुओं को बनाने का काम करेंगे जिनकी मांगे औरतों में ज्यादा होती है जैसे रंग-रोगन या कपड़े का व्यवसाय।

पारिवारिक जीवन :

शुक्र विवाह का कारक भी है तथा सप्तम भाव जो विवाह का द्योतक है, में स्थित है और आपको एक कारक दोष देता है जिसके परिणाम स्वरूप आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ सकती है। आपको एक समर्पणशील या आज्ञाकारी जीवन साथी मिलेगा। किन्तु इसके बावजूद आपका परायी स्त्रियों की ओर झुकाव होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन को तहस-नहस कर सकता है। आप बहुत ही भावुक होंगे और स्त्रियों के प्रति झुकाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं हो सकती हैं।

**महादशा :- सूर्य**  
**( 15/06/2026 - 15/06/2032 )**

सूर्य की महादशा 15/06/2026 आरम्भ हो रही है और 6 वर्षों की अवधि के बाद 15/06/2032 समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में सूर्य सप्तम भाव में अवस्थित है। सूर्य शारीरिक शक्ति, उच्च प्रतिष्ठा, नेता, प्रशासन, राज्य आदि का प्रतिनिधित्व करता है जबकि सप्तम भाव जीवनसाथी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति और व्यवसाय में साझेदारी को सूचित करता है। अतः इस दशा में आपको मान-सम्मान मिलेगा और आप पारिवारिक मामलों में शामिल होंगे।

स्वास्थ्य :

आपका स्वास्थ्य सामान्यतया उत्तम रहेगा। आपकी शारीरिक संरचना उत्तम है। आपकी जीवन-शक्ति में वृद्धि होगी।

आप में सभी समस्याओं का सामना करने की शक्ति और उत्साह विद्यमान हैं। आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे। उत्तम स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिये सात्विक तथा सन्तुलित भोजन करना चाहिए। आप सरदर्द और प्रदाह से पीड़ित हो सकते हैं और यदि असावधान रहे तो हृदय की पीड़ा भी हो सकती है।

अर्थ :

आप भाग्यशाली हैं और पर्याप्त संसाधनयुक्त हैं। आप स्वभाव से उदार हैं और

आपके लिये धन की रक्षा करना कठिन है। आपको आपके जीवनसाथी से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको अचल सम्पत्ति अथवा माता से लाभ मिल सकता है। साझेदारी अथवा विदेश से व्यापार लाभदायक सिद्ध होगा। इस दशा में आपको पर्याप्त संसाधनों की प्राप्ति होगी।

व्यवसाय :

आपको शक्ति, प्रभुत्व, सफलता, यश और ख्याति की प्राप्ति होगी। आप एक जन्मजात नेता हैं और इस दशा में संगठनों तथा संस्थाओं के प्रधान हो सकते हैं। आप बड़े निगमों या संगठनों के प्रबन्धक के पद के लिये सर्वाधिक उपयुक्त हैं। आप सैन्य अथवा राजनीतिक सेवा, प्रशासकीय कार्य, तकनीकी वैज्ञानिक सेवाओं का चयन अपनी जीवन वृत्ति के लिये कर सकते हैं। रत्नों, पत्थरों, संगमरमर, अनाज और उपकरण आदि का व्यवसाय लाभदायक हो सकता है। पेशेवर खिलाड़ियों को उत्तम और भाग्यशाली अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि के साथ पदोन्नति होगी, डच्चाधिकारियों अनुग्रह प्राप्त होगा और कार्य-क्षेत्र में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण मिलेगा। व्यवसायियों और व्यापारियों के लिये यह दशा भाग्यशाली होगी। प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय, उच्च पद प्राप्ति, यश और कार्यों में सफलता के संकेत भी मिलते हैं। आय तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

परिवार (कुटुम्ब) :

बच्चों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आपको अपने विकल्पों के प्रति हठधर्मी नहीं होना चाहिए और अपने विचार दूसरों पर आरोपित नहीं करने चाहिए। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो सकता है। आपकी माता को सारी सुख-सुविधाएं मिलेंगी और उनकी अचल सम्पत्ति में वृद्धि होगी जबकि आपके पिता की मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनकी आय में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को सट्टे तथा निवेश में लाभ मिलेगा जबकि बड़े भाई-बहनों को भाग्यशाली अवसर की प्राप्ति हो सकती है।

शिक्षा :

आपकी वेदान्त दर्शन, प्राचीन वेदों तथा योग में रुचि होगी।

**अंतर्दशा :- सूर्य - सूर्य**  
**( 15/06/2026 - 03/10/2026 )**

आपके लिए सूर्य की महादशा 15/06/2026 को प्रारंभ हो रही है। इस महादशा में पहली अंतर्दशा सूर्य की होगी जिसकी अवधि 3 मास 18 दिन होकर 03/10/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा का स्वामी सूर्य पिता, अधिकार, शक्ति, नाम, प्रसिद्धि, ऊर्जा और आत्मा का कारक है।

इस अंतर्दशा की अवधि में आप में शक्ति और ऊर्जा भरपूर रहेगी। किसी भी स्थिति से निबटने के लिए आत्मविश्वास रहेगा। प्रसिद्ध संगठनों के साथ आपकी भागीदारी होगी। विवाह, अनुबंध या भागीदारी से धन प्राप्त हो सकता है। जनमानस से संबंध मधुर रहेंगे। इस अवधि में किसी महत्वपूर्ण समझौते या ठेके पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। राजनीति में सफलता मिलेगी, विदेश यात्रा भी संभव है।

आपके पिता की आय में वृद्धि संभव है। उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। माता के सुख में वृद्धि होगी। संतान की क्रियाशीलता बढ़ेगी। जीवनसाथी सब फैसले स्वयं करना पसंद करेंगे। सेवारत जातकों के धन और आय में वृद्धि होगी। उद्यमियों, व्यापारियों, सलाहकारों की आय बढ़ेगी।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा पर अत्यधिक परिश्रम से बचना चाहिए। चिड़चिड़ेपन और आवेग से बचें। उच्च रक्तचाप या संक्रमण से ग्रस्त हो सकते हैं। शीतल पदार्थ जैसे केसर, मुलैठी आदि से औषधि स्नान करें और ध्यान का अभ्यास करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - चन्द्र**  
**( 03/10/2026 - 04/04/2027 )**

आपकी सूर्य की महादशा 15/06/2026 को प्रारंभ हुई थी। इसमें दूसरी अंतर्दशा चंद्रमा की होगी जिसकी अवधि 6 मास है और यह 04/04/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मस्तिष्क, घर, माता और सौंदर्य का कारक है।

इस अंतर्दशा की अवधि में आपका स्वास्थ्य, धन, सम्मान और साख उत्तम रहेंगे। जाने माने संगठनों से आपकी भागीदारी रहेगी। व्यापार या ठेके आदि से धन का लाभ होगा। कोई दूरस्थ स्थान या विदेश की यात्रा हो सकती है। विदेश में नाम कमाने की संभावना है। सत्ता या अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति में सफलता मिलेगी। मुकदमें में जीत होगी।

वैवाहिक जीवन और गृहसुख उत्तम होंगे। अविवाहितों का विवाह हो सकता है। विवाह से लाभ होगा अथवा विवाह किसी धनी परिवार में हो सकता है। आपके माता-पिता सुख-सुविधाओं से युक्त रहेंगे। पिता धन कमाएंगे और जायदाद प्राप्त करेंगे। उनसे आपको लाभ होगा। आपके भाई-बहनों का समय भाग्यशाली रहेगा। माता के साथ आपके संबंध उत्तम रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सुस्ती, सर्दी-जुकाम, कार्यक्षमता में कमी आदि की शिकायत हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए किसी कन्या को श्वेत वस्त्रों का दान करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - मंगल  
( 04/04/2027 - 09/08/2027 )**

आपकी सूर्य की महादशा 15/06/2026 को प्रारंभ हो रही है। इसमें तृतीय अंतर्दशा मंगल की है जिसकी अवधि 4 मास 6 दिन है। यह अंतर्दशा 09/08/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल साहस, ऊर्जा और भाइयों का कारक है।

इस अवधि में आप उद्यमशील और सक्रिय रहेंगे। धन और भूमि प्राप्त करेंगे और सामान्यतः सफल रहेंगे। शत्रु परास्त होंगे। सेवारत जातकों के लिए लाभकारी परिवर्तन हो सकता है। परामर्शदाताओं के लिए यह समय व्यस्त और क्रियात्मक रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यापारियों के खर्च बढ़ सकते हैं। साझेदारी में समस्याएं आ सकती हैं और अनुबंध फलान्वित नहीं भी हो सकते हैं। पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। माता का व्यवहार सुखदायी रहेगा। आपकी संतान शिक्षा में प्रगति करेगी और प्रसन्नता का वातावरण निर्मित करेगी। विशेषतः विज्ञान और गणित के विद्यार्थी उत्तम अंक प्राप्त करेंगे। आपके भाई-बहन धनवान बनेंगे।

मामा पक्ष के लोग जायदाद क्रय कर सकते हैं। आपके जीवनसाथी कभी-कभी कटुवचनों का प्रयोग कर सकते हैं।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ज्वर, फुंसी आदि मामूली शिकायतें हो सकती हैं। शुभत्व की वृद्धि हेतु हनुमान चालीसा का पाठ करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - राहु  
( 09/08/2027 - 03/07/2028 )**

आपके लिए सूर्य की महादशा 15/06/2026 को प्रारंभ हुई थी। इसमें चतुर्थ अंतर्दशा राहु की होगी। यह 09/08/2027 को प्रारंभ होकर 03/07/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु भौतिक सुख, दादा और तीर्थयात्रा का कारक है।

इस अवधि में जायदाद से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। निवास में परिवर्तन हो सकता है। विदेशियों से संपर्क/व्यापार संभव है। आपकी यात्रा होगी; विदेश भी जा सकते हैं। तीर्थयात्राएं होंगी। कार्य में व्यस्त रहेंगे और धन कमाएंगे।

जीवनसाथी के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। आपकी माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उनके साथ अच्छे संबंध बनाये रखने का प्रयास करें। पिता को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। भाई-बहनों को अचानक धन का लाभ होगा। आपकी संतान को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना होगा। उन्हें ज्वर आदि मामूली बीमारी हो सकती है। उनके खर्च बढ़ सकते हैं। यात्रा की संभावना है।

अगर आप सेवारत हैं तो वेतन में वृद्धि होगी। परामर्शदाताओं की साख बढ़ेगी। व्यापारियों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। आपके मामा पक्ष के लोग भाग्यशाली रहेंगे।

आपको छाती के मामूली रोग हो सकते हैं; स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभत्व में वृद्धि के लिए राहु मंत्र का जाप करें।

ॐ रां राहवे नमः

### अंतर्दशा :- सूर्य - गुरु ( 03/07/2028 - 21/04/2029 )

आपके लिए सूर्य की महादशा 15/06/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 9 मास 18 दिन की रहेगी। यह 03/07/2028 को प्रारंभ होकर 21/04/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति धन, संतान और धर्म का कारक है।

इस अंतर्दशा में आप धनवान, सम्मानित और प्रसिद्ध होंगे। अनुबंधों से लाभ होगा। मुकदमें में विजय मिलेगी। विवाह संभव है। ससुराल से लाभ होगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धन-धान्य से युक्त रहेंगे। लघु यात्राएं हो सकती हैं। कला और साहित्य में रुचि हो सकती है। सब प्रकार से धन मिलेगा, पुरस्कृत होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी।

जीवनसाथी को समृद्धि मिलेगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा; यात्राएं होंगी, सर्जनात्मक कार्यों में रुचि और सट्टेबाजी में लाभ संभावित हैं। उन्हें संतान से सुख मिलेगा। आपके पिता को धन की प्राप्ति होगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, निवेश से लाभ मिलेगा। माता की अचल संपत्ति में बढ़ोत्तरी होगी। भाई-बहनों का समय समृद्ध रहेगा। उन्हें सफलता प्राप्त होगी। आपकी संतान वाक्शक्ति में पटु होगी और शिक्षा में प्रगति करेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो धनार्जन उत्तम होगा। परामर्शदाता व्यस्त रहेंगे। व्यापारीवर्ग को यथास्थिति बनाये रखने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। पेट की शिकायतों, मधुमेह और मोटापे से बचाव करें। दुखों से बचने के लिए बृहस्पति के मंत्र का जाप करें।

ॐ बृं बृहस्पतये नमः

### अंतर्दशा :- सूर्य - शनि ( 21/04/2029 - 03/04/2030 )

आपकी सूर्य की महादशा जारी है। इसमें छठी अंतर्दशा शनि की है जिसकी अवधि 11 मास 12 दिन है। आपके लिए यह 21/04/2029 को प्रारंभ होगी और 03/04/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि आयु, संन्यास और दार्शनिक स्वभाव का कारक है।

इस अवधि में संतान से सुख और खुशी की प्राप्ति होगी। वांछित तथ्यों के सकारात्मक होने पर शिशु का जन्म हो सकता है। परंपरागत कामों में निवेश से लाभ होगा। धन, भूमि और वाहन की प्राप्ति होगी। सब बाधाओं को पार कर सफलता प्राप्त करेंगे।

उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे। घर में कोई उत्सव या विवाह हो सकता है। सरकारी अनुबंधों से लाभ हो सकता है।

आपके जीवनसाथी को निवेश से लाभ होगा, लोकप्रियता बढ़ेगी। आपके पिता की रुचि धर्म में बढ़ सकती है। माता के धन और घरेलू सुख में वृद्धि होगी। भाई-बहनों को अधिक परिश्रम करना होगा; विवाह हो सकता है। आपकी संतान की तकनीकी विषयों में रुचि होगी। उनका मन भटक सकता है, मगर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, सहचर्य से लाभ उठाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो अवांछित परिवर्तन, तबादले हो सकते हैं। परामर्शदाताओं को कार्यस्थल पर तालमेल करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए निवेश लाभकारी होंगे।

स्नायुतंत्र और पाचन की समस्याओं से सावधान रहें। कष्ट से बचने के लिए काली वस्तुएं दान देकर शनि की आराधना करें।

**अंतर्दशा :- सूर्य - बुध  
( 03/04/2030 - 08/02/2031 )**

आपकी सूर्य की महादशा 15/06/2026 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा बुध की है जिसकी अवधि 10 मास 6 दिन रहेगी। यह 03/04/2030 को प्रारंभ होकर 08/02/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बुध बुद्धिमत्ता, शिक्षा, वाणी का कारक है।

इस अवधि में आपको साझेदार के माध्यम से धन और जायदाद प्राप्त हो सकते हैं। आपकी किसी आध्यात्मिक शोध में रुचि हो सकती है। आपको सुख और सफलता की प्राप्ति होगी और शत्रुओं पर विजय होगी। उच्चाधिकारी सहयोग करेंगे। दूसरों की जायदाद और संपत्ति के प्रबंधन से सम्मान प्राप्त हो सकता है। परिवार से लाभ मिलेगा। दिया गया कर्ज वापस मिल जाएगा। व्यापार में अच्छी कमाई होगी। वृहत्तर परिवार के सदस्यों से सुख मिलेगा।

जीवनसाथी या व्यापार में साझेदार की मदद से व्यापार में धन कमाएंगे। पिता की अवांछित यात्राएं हो सकती हैं। उन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। माता को निवेश से लाभ होगा। भाई-बहनों को शत्रुओं पर सफलता मिलेगी। अगर वे सेवारत हैं तो कार्यालय में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी। आपको निवेश से लाभ होगा।

सेवारत जातकों को कठोर परिश्रम करना होगा, सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा और विचारों का आदान-प्रदान उत्तम रहेगा। व्यापारी जातक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, नये भागीदार मिल सकते हैं। परामर्शदाताओं के लाभ में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मामूली व्याधियों, पेट की गड़बड़ी, चक्कर आने, स्नायुतंत्र के रोगों से बचें। कष्टों से बचने के लिए बुध के मंत्र का जाप करें और हरी वस्तुओं का दान दें।

ॐ बुं बुधाय नमः